



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]

No. 18]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 1978/साघ 4, 1899

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 1978/MAGHA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियन्त्रण)

सार्वजनिक सूचना संख्या 9 आई० डी० सी० (पीएच०)/78

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 1978

विषय: नवम्बर 1977 से अक्टूबर, 1978 के दौरान फलों, मेवे, नमकीन अथवा हर प्रकार के परिष्कृत खाजूरों को छोड़कर अन्यथा जो उल्लिखित नहीं है (क्रम संख्या 08.01/13(3),(2) खजूर क्रम संख्या-08.01/13(4),(3) प्रौद्योगिकी बूटियाँ (अपरिष्कृत प्रौद्योगिकी) क्रम संख्या-12.07), (4) हींग (क्रम संख्या-13.01/03(5) तथा अन्य विविध मसों का ईरान से आयात।

मिस्त्रि सं० आई 2/1/77—पारितोषिक—प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध-1 के लिए दिखाई गई मदों में से हर एक अलग मद के लिए नवम्बर, 1977 से अक्टूबर, 1978 की अवधि के लिए संस्थापित आयातकों को, जिन्होंने निहित आधार भूत वर्ष में आयात किया था, ईरान से विभिन्न पदार्थों के आयात के लिए लाइसेंस देने का निर्णय किया है। हर एक मद के लिए लाइसेंस देने की नीति वर्णित अनुबन्ध के कालम 6 में बताई गई है।

2. वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत पात्र संस्थापित आयातकों को चाहिए कि वे अपना आवेदन पत्र संबंधित लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी अर्थात्, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई या संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली को बहित प्रपत्र में और विधिरूप से 25 फरवरी 1978 तक प्रेषण करने के लिए आयात से सम्बद्ध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उन दस्तावेजों का सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को ईरान से पदार्थों के आयात लाइसेंसों के लिए, जिन पदार्थों का उल्लेख अनुबन्ध-1 में किया गया है, पहले भेजा गया था और वे मंजूर कर लिए गए थे। परन्तु उनके लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने पूर्वतः दो अवधियों में जो लाइसेंस लिए थे, उनका व्योरा दें, परन्तु जहाँ संस्थापित आयातक पहली बार पत्र भेज रहे हैं, उन्हें चाहिए कि बहित आधार पर भूत वर्ष में से किसी भी एक वर्ष में ईरान से आयात की गई मदों का, जिनका व्योरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है, उससे संबंधित संशयातीत दस्तावेजों को प्रस्तुत करें।

3. यह भी निश्चय किया गया है कि ऐसे आयातक, जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध-2 के अन्तर्गत योग्य हैं, उन्हें केवल ईरान से प्रत्येक 8,500/ रुपये के समान मूल्य के आधार पर सूखे फलों के आयात के लिए लाइसेंस भी दिए जाएंगे। उन्हें चाहिए कि वे नवम्बर, 1977 से अक्टूबर, 1978 की लाइसेंस अवधि के लिए ईरान से केवल सूखे फलों के आयात के लिए आवेदन-पत्रों को हर प्रकार से पूरा करके बहित प्रपत्र में और विधिरूप से संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली को 25 फरवरी, 1978 तक प्रेषण करने के लिए भेज दें।

4. सूखे फलों के लिए लाइसेंसों का न्यूनतम मूल्य 8,500 रुपये होगा। खजूर, हींग और गोंद तथा रेजिन्स जो कोटा प्रतिगता के आधार पर लाइसेंस के योग्य हैं, उनके लिए वर्ष के लिए लाइसेंस का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपये होगा। लेकिन इस बात का स्पष्टीकरण किया जाता है कि उपर्युक्त मामलों से संबंधित स्थापित आयातकों द्वारा कोटा के स्थानान्तरण/विभाजन की स्थिति में आयात व्यापार नियंत्रण नियम और कार्य विधि, हेण्डबुक-1977-78 की कंडिका 45(2) में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अनुवर्ती पाटियाँ मूल उद्योग के स्वीकृत कोटे में से अपने हिस्से के अनुपात में लाइसेंस प्राप्त करने के अधिकारी होंगी। प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार जहाँ समान मूल्य के आधार पर लाइसेंस दिए जाते हैं, कोटा अधिकारी के स्थानान्तरण/विभाजन होने की स्थिति में मूल उद्योग से संबंधित विपार्टी के भीतर हर एक पार्टी के हक का अनुपातिक रूप से आवंटन किया जाता है।

5. यह ध्यान रखे कि सूखे फल जो अनुबन्ध-1 तथा-2 दोनों के अन्तर्गत आयात के लिए अनुज्ञप्त है, इनके सम्बन्ध में दोनों प्रकार के लाभ नहीं दिए जाएंगे। सूखे फलों के आयात करने वाले आवेदकों को चाहिए कि वे या तो अनुबन्ध-1 की शर्तों के अनुसार या अनुबन्ध-2 की शर्तों के अनुसार केवल एक ही आवेदनपत्र भेजें और उन्हें चाहिए कि वे अपने आवेदनपत्रों में स्पष्ट रूप से लिख दें कि उन्होंने केवल एक के लिए आवेदनपत्र भेजा है न कि दोनों के लिए।

6. सामान्य मुद्रा क्षेत्र, जिसमें ईरान सम्मिलित है, से अपरिष्कृत भेषजों के लिए कोटाधारी संस्थापित आयातक जो इस नीति के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि जिस वर्ष के लिए उनके पास सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए कोटा प्रमाण है, उससे भिन्न किसी एक मूल वर्ष में, भूतकाल में उन्होंने ईरान से अपरिष्कृत भेषजों का आयात किया हो। इस सम्बन्ध में, लाइसेंस प्राधिकारी को साध्य प्रस्तुत करना चाहिए जिस से कि भूतकाल में किए गए एक ही प्रकार के आयातों के लिए दो तरफ़ा लाभ उपार्जित न किया जाए।

7. हर एक मस की निश्चित मौद्रिक सीमा के भीतर ही लाइसेंस दिया जाएगा। सभी देर से आने वाले अधूरे आवेदनपत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8. वैध मामलों में दिए जाने वाले आयात लाइसेंसों का ईरान से तीव्रस्थान पोतों अथवा मार्गों से आयात के लिए वैध माना जाएगा। सूखे फलों के मामले में, लाइसेंसों के पूरे अंकित मूल्य तक पोतनाव द्वारा आयात करने की हजाजत होगी और ऐसे आयातों का आधार लागत-बीमा-भाड़ा होगा। यदि लाइसेंसों की वैधता अवधि के समय लाइसेंसधारी किसी समय ऐसा चाहे तो खजूरों के मामले में आयात स्थल मार्ग, नावपोतो या किसी भी देश के पोतों—जो भी पहले उपलब्ध हो उसी के द्वारा किया जा सकता है।

9. प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के विषय में जारी किए गए लाइसेंस 31 अक्टूबर 1978 तक वैध होंगे तथा भविष्य में उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

10. अप्रैल, 77—मार्च, 78 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (बा०-1) के खण्ड-1 की कड़िका 120 में दी गई व्यवस्थाएं जो लाइसेंसों के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य से संबंधित हैं, इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए लाइसेंसों के लिए लागू नहीं होंगी।

11. हींग के आयातकों का ध्यान खाद्य मिलावट निरोधक नियमों की ओर दिलाया जात है और उनके निजी हित के लिए उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ईरान से आयात किया हींग पूर्वोक्त नियमों के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्टिकरण के अनुसार हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातकों द्वारा आयात किया गया हींग निर्धारित मानक के अनुरूप है, पतन पर स्वास्थ्य संगठन हींग के प्रत्येक परेषित माल का परीक्षण करेगा। प्रत्येक बार परेषित माल का परीक्षण करने के बाद पतन स्वास्थ्य संगठन अपनी निजी सील के अन्तर्गत हींग के थैलों को सीलबद्ध करेगा। इन थैलों को राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा आगे तब तक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनकी सील सम्पूर्ण है और जब तक विशेष कारणों से यह साध्य नहीं मिलता है कि उसमें सम्मिश्रण किया गया है।

12. इस सार्वजनिक सूचना से आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (बा०-1) 1977-78 के परिशिष्ट 2 में आने वाली स्वतंत्र लाइसेंस योजना के अर्धीन खजूर और सूखे फलों के आयात से सम्बन्ध नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुबन्ध 1

आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची की सं० तथा भाग	विवरण	लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंसों की वैधता	पाठना का आधार	लाइसेंस नीति
1	2	3	4	5	6
08.01/13(3)	सूखे फल	संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र 1) नई दिल्ली तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई-1	31 अक्टूबर, 1978 तक	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 तक की अवधि के दौरान सूखे फलों का आयात किया था।	आधारभूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 27% कम-से-कम 8500 रु० के अधीन।
08.01/13(4)	खजूर	—वही—	—वही—	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान खजूरों का आयात किया था।	आधारभूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 100% के अधीन।
32.04/12(2)	पेन्ट्स और सिमेन्ट्स रंगों के विनिर्माण के लिये आयरन आक्साइड पिग्मेंट्स जो आई० एस० 44/1969 के विशिष्टिकरण की पुष्टि करते हैं और जिसमें 445, 446 और 473 आई० एस० विशिष्टिकरण 1961 शामिल नहीं हैं।	—वही—	—वही—	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान रेड आक्साइड का आयात पुराने 34.37 (डी) के वर्गीकरण के अधीन किया था।	सामान्य मूल्य के आधार पर।

1	2	3	4	5	6
13.01/03	हींग	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (के० ला० क्षेत्र) नई दिल्ली तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई-1	31 अक्टूबर 1968 तक	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान हींग का आयात किया था।	आधारभूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 100%
12.07	औषधीय बूटियां, अपरिष्कृत औषधियां जिनकी सूची अप्रैल 1977, मार्च 1978 की रेड बुक के परिशिष्ट 19 के अनुबन्ध-1 तथा 2 में दी गई हैं।	—वही—	—वही—	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान अपरिष्कृत औषधियों का आयात किया था।	समान मूल्य के आधार पर
13.02	रेजिगॉन्स तथा लाख हर किस्म के जो अन्यथा रूप से उल्लिखित नहीं हैं। लोहबान बहने वाला गोब को छोड़कर।	—वही—	—वही—	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान इन मदों का आयात किया था।	आधारभूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 45%

## अनुबन्ध-2

आई० टी० सी० अनुसूची की संख्या तथा भाग	विवरण	लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंस की वैधता	पात्रता का आधार	लाइसेंस देने की नीति
1	2	3	4	5	6
08.01/13(3)	सूखे फल	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली	31 अक्टूबर, 1978 तक	ईरान से सूखे फलों के तथ्य आयात लाइसेंस इनको दिये जाएंगे:— (1) उन संस्थापित आयातकों को जिन्होंने अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात पांच वर्षों के दौरान अपने खाते पर किया था जिसका अन्त 30-6-57 को हुआ। (2) उन संस्थापित आयातकों को जिन्होंने ताजे फलों का आयात 1951-52 से लेकर 1970-71 तक की अवधि के दौरान किसी सामान्य क्षेत्र में आने वाले देशों में अफगानिस्तान को छोड़कर किन्तु पाकिस्तान शामिल है, अपने खाते से किया हो। (3) उन संस्थापित आयातकों को जिनका ताजे फलों का आयात 1945-46 से 1950-51 की अवधि के दौरान किसी सामान्य क्षेत्र से आने वाले देशों में अफगानिस्तान को छोड़कर जिसमें पाकिस्तान शामिल है, अपने खाते से किया हो, बशर्ते कि 1960-64 की अवधि के दौरान पाकिस्तान से किये जाने वाले तथ्य ताजे फलों के आयात लाइसेंसों को जारी कर लिया था।	प्रत्येक 8500 रु० के आधार पर

1	2	3	4	5	6
				(4)	उन संस्थापित आयातकों को जिनका सूखे फलों का आयात 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान उनके खाते में हो।
				(5)	ताजा फलों का व्यापार करने वाली सहकारी समितियों को निम्नलिखित प्रस्तुत करने पर :—
				(क)	सम्बद्ध सहकारी समितियों के पंजीयक से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र कि सहकारी समितियाँ अभी भी विद्यमान हैं;
				(ख)	संलग्न प्रपत्र में एक शपथ-पत्र देखें अनुबन्ध-3
				(ग)	सनवी लेखापाल से इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कि वित्तीय वर्ष 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 एवं 1971-72 के दौरान समिति का ताजे फलों का व्यवसाय 15,000 रु० (पन्द्रह हजार रुपये) से कम नहीं था।
				यदि उपर्युक्त उप-कंडिका (ग) में यथा संबंधित एक प्रमाण-पत्र भूत में प्रस्तुत कर दिया गया था और यह ईरान से सूखे फलों के आयात के लिये लाइसेंस जारी करने के लिये लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, उसकी फोटोस्टैट कापी या प्रति जो शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् स्थापित की गई हो, आवेदन-पत्र के साथ भेजे।	

## शपथ-पत्र का प्रारूप

..... (सहकारी समिति का नाम) के सचिव/अध्यक्ष श्री..... सुपुत्र.....  
 जिनका निवास स्थान..... है का शपथ-पत्र।  
 मैं उपर्युक्त नामक अभिसाक्षी एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं..... (सहकारी समिति का नाम) की ओर से इस शपथ-पत्र की पुष्टि करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत हूँ और यह घोषणा करता हूँ :—  
 1. कि..... (सहकारी समिति का नाम और पता) ताजे फलों का व्यापार करती रही है और अब भी कर रही है।  
 2. कि यदि उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित घोषणा गलत या झूठी पाई जाती है तो इस घोषणा के आधार पर पूर्वोक्त सहकारी समिति को प्रदान किया गया कोई भी लाइसेंस सरकार द्वारा आरोपित किसी भी दण्ड या यथा संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम और आयात (नियंत्रण) अधिनियम और आयात (नियंत्रण) अधिनियम, 1955 के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक

अभिसाक्षी .....

स्थान का पता :—

सत्यापन :

मैं..... एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा-पत्र में दिये गये विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

दिनांक

अभिसाक्षी .....

स्थान का पता :

का० जे० शेफार्ड, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE  
(IMPORT TRADE CONTROL)**

**PUBLIC NOTICE NO. 9-ITC(PN)/78**

New Delhi, the 24th January, 1978

**Subject.**—Import of fruits, dried, salted or preserved all sorts, n.o.s. excluding dates (S. No. 08.01/13(3), (ii) dates (S. No. 08.01/13(4) (iii) medicinal herbs (crude drugs) (S. No. 12.07), (iv) asafoetida (S. No. 13.01/03(5) and other miscellaneous items from Iran during November, 1977 October, 1978 period.

**File No. 2/1/77-Pol I.**—It has been decided to grant licences for import of various commodities from Iran during November 1977—October 1978 period to the established importers, having past imports within the prescribed basic years, as shown against each item in Annexure I to this Public Notice. The licensing policy for each item has been indicated in col. 6 of the aforesaid annexure.

2. The established importers, eligible in terms of the current policy, may submit their applications to the respective licensing authority viz., Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Bombay or Jt. Chief Controller of Imports and Exports, (Central Licensing Area), New Delhi on or before the 25th February, 1978, in the usual form and manner. No past import documents are required to be produced, provided such documents were submitted to the licensing authority concerned in the past and were accepted by them for issue of licences for import of commodities from Iran indicated in Annexure-I. They should, however, quote details of licences obtained in the preceding two periods. Where, however, the established importers are applying for the first time, they are required to produce unimpeachable documents relating to past imports from Iran in respect of the items as in Annexure-I for any one year within the prescribed basic years.

3. It has also been decided that the importers, who are eligible in terms of Annexure II to this Public Notice will also be granted licences for import of dry fruits only from Iran on equal value basis of Rs. 8,500 each. They may submit their applications for imports of dry fruits only from Iran for November 1977—October 1978 licensing period to be Jt. Chief Controller of Imports and Exports, (Central Licensing Area), New Delhi on or before the 25th February, 1978 in the usual form and manner, complete in all respects.

4. The minimum value of licences for dry fruits will be Rs. 8,500. The minimum value of licences for dates, asafoetida, gums & resins licensable on quota percentage basis, will be Rs. 1,000 for the year. It is, however, clarified that in the case of transfer/division of quota by established importers relating to above cases, the succeeding parties will be entitled to get licences in proportion to their share in approved quota of the original concern as provided in Para 45(2) of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78. Where the licences are issued on equal value basis in terms of this Public Notice, the entitlement of each party is to be divided proportionately among the split up concerns of the parent concern, in case of transfer/division of the quota rights.

tionately among the split up concerns of the parent concern, in case of transfer/division of the quota rights.

5. It may be noted that no double benefit will be given in respect of dry fruits, which is permitted for import both under Annexure I and Annexure II. The applicants for dry fruits should submit only one application either in terms of Annexure I or in terms of Annexure II, and they should clearly mention in their application that they have applied in one capacity only and not under both.

6. Established importers, holding quota certificates for crude drugs on General Currency Area, which includes Iran, who are desirous of claiming licences under this policy have to have past imports of crude drugs from Iran in a different basic year than the one for which they hold quota certificates on General Currency Area. Evidence to this effect should be produced to the licensing authority, so that no double benefit accrues in respect of the same past imports.

7. Licensing will be done within the monetary limit fixed for each item. All late/incomplete applications are liable to be rejected.

8. Import licences granted in eligible cases will be valid for import from Iran either by sailing vessels or land route. In the case of dry fruits, import will be allowed by steamships upto the full face value of the licences and such imports will be on c.i.f. basis. In the case of dates, import may be effected by land route, sailing vessels or steamship of either country whichever is available at the earliest, if the licensees so desire at any time during the validity period of the licences.

9. Import licences issued in pursuance of this Public Notice will be valid upto 31st October, 1978 and will not be extended.

10. The provisions of Paragraph 120 of Section I of the Import Trade Control Policy Book (Vol. I) for the period April 1977—March 1978, relating to minimum and maximum values of licences will not apply to the licences issued in terms of this Public Notice.

11. Attention of importers of asafoetida is invited to the Prevention of Food Adulteration Rules and in their own interest, they are advised to ensure that asafoetida imported from Iran conforms to the specifications prescribed under the aforesaid rules. In order to ensure that the asafoetida imported by the importers conforms to the prescribed standard, Port Health Organisations will test each consignment of asafoetida. Port Health Organizations after testing each consignment will seal the asafoetida (hing) bags under their own seal. These bags may not be further subjected to testing by State/Local bodies so long as their seals are intact and there is no evidence that the bags have been tampered with unless there are some special reasons for the same.

12. This Public Notice does not in any way affect the policy relating to the import of dates and dry fruits under the free licensing scheme covered by Appendix 2 to the I.T.C. Policy Book (Vol. I) for 1977-78.

**ANNEXURE I**

No. & Part of the ITC Schedule	Description	Licensing Authority	Validity of Licences	Basis of eligibility	Licensing policy
1	2	3	4	5	6
(i) 08.01/13(3)	Dry fruits	Jt. CCI&E (CLA), New Delhi, Jt. CCI&E Bombay.	Upto 31st Oct., 1978	Applications from established importers having past imports of dry fruits from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	27% as of best year's imports during the basic period, subject to a minimum of Rs. 8,500.
(ii) 08.01/13(4)	Dates	-do-	-do-	Applications from established importers having past imports of dates from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	100% of best year's imports during the basic period.

1	2	3	4	5	6
(iii) 32.04/12(2)	Iron Oxide pigments conforming to IS specification 44/1969 and excluding shades 445, 446 and 473 to IS : S/1961 for manufacture of paints and cement colours.	Jt. CCI&E (CLA), New Delhi Jt. CC&E Bombay.	Upto 31st Oct., 1978	Applications from established importers having past imports of red oxide, under old classification (34-37(d)/V) from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	On equal value basis.
(iv) 13.01/.03(3)	Asafoetida	-do-	-do-	Applications from established importers having past imports of asafoetida from Iran within the period 1951-52 to 1970-71 will be considered.	100% of best year's imports during the basic period.
(v) 12.07	Medicinal herbs, crude drugs, listed in Annexures I & II of Appendix 19 to the Red Book for April, 1977-March, 1978.	-do-	-do-	Applications from established importers having past imports of Crude Drugs from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	On equal value basis.
(vi) 13.02	Gums, resins and lac all sorts, n.o.s., excluding olibanum and frankincense.	-do-	-do-	Applications from established importers having past imports of these items from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	45% of best year's imports during the basic period.

## ANNEXURE-II

S. No. & part of the ITC Schedule	Description	Licensing Authority	Validity of licences	Basis of eligibility	Licensing policy
1	2	3	4	5	6
08.01/13(3)	Dry fruits	Jt. CCI&E (CLA) New Delhi.	Upto 31st Oct., 1978.	Ad-hoc licences for import of dry fruits from Iran will be issued to : (i) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from Afghanistan during the five years ended 30-6-57. (ii) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan during the period from 1951-52 to 1970-71. (iii) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan during the period from 1945-46 to 1950-51, provided these imports had been accepted by the licensing authority for grant of ad-hoc licences for import of fresh fruits from Pakistan during the period 1960 to 1964.	On equal value basis of : Rs. 8,500 each.

1	2	3	4	5	6
					<p>(iv) Established importers who have imports of dry fruits to their credit from Pakistan during the period from 1951-52 to 1970-71.</p> <p>(v) Co-operative societies dealing in fresh fruits, subject to the production of :—</p> <p>(a) A certificate from the concerned Registrar of Co-operative Societies that the co-operative society is still in existence;</p> <p>(b) An affidavit in the pro-forma enclosed vide Annexure-III;</p> <p>(c) A certificate from a Chartered Accountant to the effect that the society had a turn-over of not less than Rs. 15,000 (Rs. fifteen thousand) during any one of the financial years 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72 in fresh fruits.</p> <p>If a certificate as referred to in sub-para (c) above had been produced in the past and it had been accepted by the licensing authority concerned for the issue of licences for import of dry fruits from Iran, photo-stat copy thereof or a copy duly attested by an Oath Commissioner or Notary Public or Magistrate I Class or Gazetted Officer, may be furnished along with the application.</p>

### ANNEXURE-III FORM OF AFFIDAVIT

Affidavit of Shri.....s/o....., residing at.....  
 ....., Secretary/President of.....  
 .....(Name & address of the Cooperative Society).

I, the above named deponent, do hereby solemnly affirm and declare that I am duly authorised to affirm this affidavit on behalf of  
 .....(Name of cooperative society) and declare as under :—

- (i) That the.....(name and address of the cooperative society) has been and is still dealing in fresh fruits.
- (ii) That any licence granted to the aforesaid cooperative society on the basis of this declaration is liable to be cancelled without prejudice to any penalty that the Government may impose or any other action that may be taken under the Imports and Exports (Control) Act and Imports (Control) Order, 1955 as amended, in case it is found that the declaration as stated in para (i) above is incorrect or false.

Date :

Place :

Verification :

Deponent.....

I,.....do hereby affirm and declare that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Date :

Place :

Deponent.....

K.V. SESHADRI, Chief Controller, Import & Export.

